



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 15 फरवरी, 2023 ई०

(माघ 26, 1944 शक संवत्)

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय), हमीरपुर

संख्या 505/जि०नि०का०(पं० एवं न०नि०)ह०/त्रि०पं० रिक्त पद निर्वा०, 2023

दिनांक : 15 फरवरी, 2023 ई०

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या-1/274121/2023/33-3099/832/2022-3-241, दिनांक 13 फरवरी, 2023 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-243ट सहपठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12खख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-60/रा०नि०आ०-3/28-22/पं० उप निर्वा०/2023 दिनांक 14 फरवरी, 2023 में निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करते हुए ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त अधिसूचना के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशों के क्रम में मैं, डॉ० चन्द्र भूषण, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं० एवं न०नि०), हमीरपुर एतद्वारा नीचे सारणी में दिये गये चुनाव कार्यक्रम के अनुसार निम्न ग्राम पंचायतों के प्रधान व सदस्यों के पद पर उप निर्वाचन कराये जाने का निर्देश देता हूँ :-

समय-सारणी

नाम निर्देशन-पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
20 फरवरी, 2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	21 फरवरी, 2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	22 फरवरी, 2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	22 फरवरी, 2023 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02 मार्च, 2023 (प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	04 मार्च, 2023 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

रिक्त स्थानों/पद का आरक्षण सहित विवरण

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त पद का विवरण	वार्ड संख्या	आरक्षण की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	मौदहा	परछछ	प्रधान ग्राम पंचायत	—	अनुसूचित जाति
2	कुरारा	भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	1	अनारक्षित
3		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	2	अनारक्षित
4		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	3	महिला
5		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	4	अनु0जा0म0
6		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	5	पि0जा0
7		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	6	अनारक्षित
8		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	7	अनारक्षित
9		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	8	महिला
10		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	11	पि0जा0म0
11		भौली	सदस्य ग्राम पंचायत	12	अनारक्षित
12	सुमेरपुर	बडागांव	सदस्य ग्राम पंचायत	3	अनारक्षित
13		कलौलीतीर	सदस्य ग्राम पंचायत	2	महिला
14		छानीखुर्द	सदस्य ग्राम पंचायत	3	अनुसूचित जाति म0
15	मुस्करा	मुस्करा	सदस्य ग्राम पंचायत	5	अनारक्षित
16	राठ	कैथा	सदस्य ग्राम पंचायत	9	अनारक्षित
17		गोहानी पनवाडी	सदस्य ग्राम पंचायत	5	अनारक्षित

2—उक्त ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सदस्यों के रिक्त स्थान/पद पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का पूर्ण विवरण देते हुये निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार कराया जायेगा और गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किए जाने के दिनांक से नामांकन-पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

3—उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन-पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिमाण की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।

4—उपर्युक्त समय-सारणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5—संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराये जायेंगे।

डॉ0 चन्द्र भूषण,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
हमीरपुर।